

Caringly yours

BAJAJ | Allianz



आपकी सभी इंश्योरेंस आवश्यकताओं के लिए बेहतरीन समाधान





बजाज आलियांज रोज़ाना अस्पताल में भर्ती होने पर नकद आप और आपके परिवार के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा!

प्लांस:

- प्रति दिन रु.500
- प्रति दिन रु.1000
- प्रति दिन रु.2000
- प्रति दिन रु.2500
- प्रति पॉलिसी अवधि के अनुसार 30 दिन और 60 दिन

पॉलिसी अवधि - 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष

लाभ:

- अस्पताल में भर्ती होने के 24 घंटे की प्रत्येक निरंतर और पूर्ण अवधि के लिए दैनिक भत्ता केवल उक्त आकस्मिक शारीरिक चोट या बीमारी का कारण होने पर, या
- ICU में 24 घंटे की प्रत्येक निरंतर और पूर्ण अवधि के लिए दैनिक भत्ते का दो गुना

बहिष्करण:

- प्रतीक्षा अवधि- 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि
- सामान्य- पूर्व-मौजूदा बीमारी: कोई भी चिकित्सीय स्थिति या उससे उत्पन्न होने वाली जटिलता जो पॉलिसी अवधि के प्रारंभ होने से पहले मौजूद थी या जिसके लिए किसी चिकित्सक द्वारा देखभाल, उपचार या सलाह मांगी गई थी, सुझाव दिया गया था या प्राप्त किया गया था या जिसके लिए किसी पूर्व पॉलिसी के तहत दावा किया जा सकता था.



- **प्रीमियम चार्ट**
- **फॅमिली डिस्काउंट 5% (परिवार पर छूट 5%)**
प्रीमियम GST छोड़कर दिया गया है.

30 दिन के लिए प्रीमियम						
विकल्प	बीमा राशि	90 दिनों से 25 वर्ष	26-40 वर्ष	41-50 वर्ष	51-55 वर्ष	56 वर्ष और उससे अधिक
A	500	250	400	650	900	1200
B	1000	300	600	900	1300	1800
C	2000	600	850	1700	2800	3600
D	2500	800	1100	2600	3500	4600

प्रीमियम GST छोड़कर दिया गया है.

60 दिन के लिए प्रीमियम						
विकल्प	बीमा राशि	90 दिनों से 25 वर्ष	26-40 वर्ष	41-50 वर्ष	51-55 वर्ष	90 वर्ष और उससे अधिक
A	500	300	525	850	1200	1600
B	1000	500	825	1800	2400	3000
C	2000	1000	1500	3600	4400	4800
D	2500	1350	1800	4200	5000	5800

प्रीमियम GST छोड़कर दिया गया है.



बजाज आलियांज पेश करता है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी

विकल्प:

बेसिक- केवल मृत्यु- मासिक आय का अधिकतम 100 गुना, अधिकतम रु.25 लाख तक

वाइडर- मृत्यु+PPT+PPD- मासिक आय का अधिकतम 60 गुना

कॉम्प्रेहेंसिव (व्यापक)- मृत्यु+PTD+ PPD+TTD- मासिक आय का अधिकतम 24 गुना या अधिकतम 5 लाख रुपये स्वयं, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों

लाभ:

- मृत्यु- बीमा राशि का 100%
- स्थायी कुल विकलांगता- बीमा राशि का 125% (PPG- बीमा राशि का 200%)
- स्थायी आंशिक विकलांगता
- अस्थायी कुल विकलांगता- बीमा राशि का 1% या प्रति सप्ताह रु. 5000/-, जो भी कम हो (**अतिरिक्त इंश्योरेंस**):
 - a. परिवहन- बीमा राशि का 1% या रु. 5000/-, जो भी कम हो
 - b. बच्चे की शिक्षा का लाभ- रु. 5000/-, 2 बच्चों तक

वैकल्पिक भाग

- a. अस्पताल में प्रसूतिपर प्रतिपूर्ति- प्रति दिन रु. 1000/- अधिकतम रु. 30000/- तक
- b. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति- स्वीकृत दावा राशि का 40% या रु 5 लाख जो भी कम हो पॉलिसी अवधि- 1 वर्ष / 2 वर्ष / 3 वर्ष

बहिष्करण

सामान्य- पहले से मौजूद बीमारी/गर्भावस्था/आत्महत्या के कारण बीमित जोखिम, आत्महत्या का प्रयास या खुद को लगी चोट या बीमारी/आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करना/हवाबाजी या बल्लूनिंग/मोटर रेसिंग या ट्रेल रन/किसी भी पदार्थ, दवा या शराब का दुरुपयोग

- **प्रीमियम चार्ट**
- **व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी**
- **स्थायी आंशिक विकलांगता तालिका:**

कंधे के जोड़ पर बांह	70%
कोहनी के जोड़ के ऊपर की बांह	65%
कोहनी के जोड़ के नीचे की बांह	60%
कलाई पर	55%
अंगूठा b	20%
तर्जनी उंगली	10%
कोई अन्य उंगली	5%
बीच जांघ के ऊपर पैर के हिस्सा	70%
बीच जांघ तक पैर	60%
घुटने के नीचे तक एक पैर	50%
मध्य-काल्फ़ (जंघा) तक पैर	45%
टख़ने पर पैर	40%
बड़ा पांव का अंगूठा	5%
कोई अन्य पांव का अंगूठा	2%
एक आँख	50%
एक कान के सुनने की शक्ति	30%
दोनों कान में सुनने की शक्ति	75%
गंध का बोध	10%
स्वाद का बोध	5%

वार्षिक प्रीमियम दर

नीचे दी गई प्रीमियम दरें (%) - रु. प्रति 1000/-			
कवर	जोखिम वर्ग		
	I	II	III
बेसिक	0.45	0.6	0.9
वाइडर	1	1.25	1.75
कॉम्प्रेहेंसिव (व्यापक)	1.5	2	उपलब्ध नहीं
चिकित्सा खर्च	उपरोक्त प्रीमियम का 25%	उपरोक्त प्रीमियम का 25%	उपरोक्त प्रीमियम का 25%
अस्पताल प्रसूति	प्रति व्यक्ति रु. 300	प्रति व्यक्ति रु. 300	प्रति व्यक्ति रु. 300

प्रीमियम GST छोड़कर दिया गया हैं.



बजाज आलियांज पेश करता है संकट मोचन

विकल्प:

मूल- केवल मृत्यु- मासिक आय का अधिकतम 100 गुना

वाइडर- मृत्यु+PPT+PPD- मासिक आय का अधिकतम 60 गुना

कॉम्प्रेहेंसिव (व्यापक)- मृत्यु+PTD+ PPD+TTD- मासिक आय का अधिकतम 24 गुना स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चे

लाभ:

- मृत्यु- बीमाराशि का 100%
- स्थायी कुल विकलांगता- बीमा राशि का 125%
- स्थायी आंशिक विकलांगता
- अस्थायी कुल विकलांगता- बीमित राशि का 1% या 5,000/- प्रति सप्ताह, जो भी कम हो
- a. परिवहन- बीमित राशि का 1% या रु.5,000/- जो भी कम हो
- b. बच्चों की शिक्षा लाभ- 2 बच्चों के लिए रु. 5000 तक

वैकल्पिक अनुभाग

- a. अस्पताल में प्रसूति पर प्रतिपूर्ति- प्रति दिन रु. 1000 अधिकतम रु. 30000 तक
- b. दुर्घटनावश अस्पताल में भर्ती होने पर कवर

संकट मोचन पॉलिसी में चुनने के लिए 16 स्व-तैयार योजना शामिल है

पॉलिसी अवधि- 1 वर्ष

बहिष्करण

सामान्य- पहले से मौजूद बीमारी/गर्भावस्था/आत्महत्या के कारण बीमित जोखिम, आत्महत्या का प्रयास या खुद को लगी चोट या बीमारी/आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करना/हवाबाजी या बल्लूनिंग/मोटर रेसिंग या ट्रेल रन/किसी भी पदार्थ, दवा या शराब का दुरुपयोग



• संकट मोचन

प्लांस	प्लांस 1	प्लांस 2	प्लांस 3	प्लांस 4	प्लांस 5	प्लांस 6	प्लांस 7	प्लांस 8
बेसिक	200000	100000	0	0	0	0	0	0
वाइडर	0	0	100000	0	200000	0	0	300000
कॉम्प्रेहेंसिव	0	0	0	100000	0	200000	200000	0
ACC अस्पताल	100000	50000	50000	50000	100000	100000	100000	100000
अस्पताल प्रसूति भत्ता	0	1000	1000	1000	1000	0	1000	0
अंतिम प्रीमियम वर्ग I*	240	470	525	575	650	450	750	450
अंतिम प्रीमियम वर्ग II*	270	485	550	625	700	550	850	525

Op4	प्लांस 9	प्लांस 10	प्लांस 11	प्लांस 12	प्लांस 13	प्लांस 14	प्लांस 15	प्लांस 16
बेसिक	0	0	0	0	0	0	0	200000
वाइडर	300000	0	0	0	0	0	0	200000
कॉम्प्रेहेंसिव	0	300000	300000	500000	500000	500000	500000	200000
ACC अस्पताल	100000	100000	100000	100000	100000	200000	200000	200000
अस्पताल प्रसूति भत्ता	1000	0	1000	1000	1000	0	1000	1000
अंतिम प्रीमियम वर्ग I*	750	600	900	1200	1200	1050	1350	1190
अंतिम प्रीमियम वर्ग II*	825	750	1050	1450	1450	1300	1600	1370

प्रीमियम GST छोड़कर दिया गया हैं.

जोखिम वर्ग I: बीमित व्यक्ति मुख्य रूप से प्रशासनिक या प्रबंध कार्यो, अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील, वास्तुकार, कंसल्टिंग इंजीनियर, शिक्षक और बैंकर है या मुख्य रूप से इसी तरह के व्यवसाय करता है.

जोखिम वर्ग II: बीमित व्यक्ति शारीरिक श्रम, गैरेज या मोटर मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर, कार, ट्रक, लॉरी या अन्य भारी वाहनों के पेड ड्राइवर, नकद ले जाने वाले कर्मचारी, वुड वर्डिंग मशीनिस्ट या बिल्डर /कांट्रेक्ट या और इंजिनियर के काम, पशु चिकित्सा या इन जैसे व्यवसायों में शामिल होता है.



बजाज आलियांज पेश करता है प्रीमियम पर्सनल गार्ड

विकल्प:

मूल- केवल मृत्यु- मासिक आय का अधिकतम 100 गुना

वाइडर- मृत्यु+PPT+PPD- मासिक आय का अधिकतम 60 गुना

कॉम्प्रेहेंसिव (व्यापक)- मृत्यु+PTD+ PPD+TTD- मासिक आय का अधिकतम 24 गुना स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चे

लाभ:

- मृत्यु- बीमाराशि का 100%
- स्थायी कुल विकलांगता- बीमा राशि का 125%
- स्थायी आंशिक विकलांगता
- अस्थायी कुल विकलांगता- बीमित राशि का 1% या 5,000/- प्रति सप्ताह, जो भी कम हो (PPG -अधिकतम 100 सप्ताह के लिए रु. 5000/7500/10000)

अतिरिक्त बीमा

- a. परिवहन- बीमा राशि का 2% या रु. 5000, जो भी कम हो
- b. बच्चों की शिक्षा का लाभ - 2 बच्चों तक रु. 5000

वैकल्पिक अनुभाग

- a. PPG - प्रति दिन रु. 1000 से रु. 2500 तक अधिकतम रु. 30000
- b. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति- स्वीकृत दावा राशि का 40% या रु. 5 लाख जो भी कम हो, संचयी बोनस- प्रत्येक दावा मुक्त वर्ष बीमा राशि का 10% अधिकतम 50% तक संचयी बोनस (CB)

पोलिसी अवधि- 1 वर्ष

बहिष्करण

सामान्य- पहले से मौजूद बीमारी/गर्भावस्था/आत्महत्या के कारण बीमित जोखिम, आत्महत्या का प्रयास या खुद को लगी चोट या बीमारी/आपराधिक इरादे से कानून का उल्लंघन करना/हवाबाजी या बलूनिंग/मोटर रेसिंग या ट्रेल रन/किसी भी पदार्थ, दवा या शराब का दुरुपयोग

• **प्रीमियम पर्सनल गार्ड**

प्लान		A	B		
बीमा राशि (रु.)		1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
मूल प्लान	मृत्यु	100%	100%	100%	100%
	PTD 1	200%	200%	200%	200%
	PPD 2	तालिका के अनुसार			
	TTD 3 (रु./सप्ताह)	5000/100	5000/100	7500/100	10000/100
ऐड ओन	आकस्मिक दुर्घटना पर अस्पताल में भर्ती होने पर लाभ (रु.)	200,000	300,000	400,000	500,000
	अस्पताल प्रसूति भत्ता	1000	1500	2000	2500
प्रीमियम	मूल प्लान*	1300	2100	2875	3650
	ऐड ओन*	475	710	950	1200
अतिरिक्त सदस्य A	पति/पत्नी	सेल्फ प्लान की 50% छूट			
	मूल प्लान*	650	1050	1438	1825
	ऐड ओन*	238	355	475	600
अतिरिक्त सदस्य B	प्रत्येक बच्चा	सेल्फ प्लान की 25% छूट			
	मूल प्लान*	325	525	719	913
	ऐड ओन*	119	178	238	300

*1. PTD- परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी (स्थायी कुल विकलांगता) 2. PPD- परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी (स्थायी आंशिक विकलांगता) 3. TTD- टेम्परी टोटल डिसेबिलिटी (अस्थायी कुल विकलांगता)



बजाज आलियांज M-केयर

मच्छरों जनित बीमारियों के खिलाफ बेहतरीन कवच

बीमा राशि विकल्प

- रु.10000
- रु.15000
- रु.25000

कवर की जाने वाली बीमारियाँ

डेंगू बुखार, मलेरिया, फाइलेरिया (जीवन भर में केवल एक बार देय), काला अजार, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, जीका वायरस

देय लाभ

• फ्लोटर बीमा राशि पॉलिसी

- 2 सदस्यों को कवर करने वाली फैमिली फ्लोटर पॉलिसी- दावे का भुगतान करने के बाद दोनों सदस्यों के लिए पॉलिसी समाप्त हो जाएगी.
- 2 से अधिक सदस्यों को कवर करने वाली फैमिली फ्लोटर पॉलिसी- नामित बीमित व्यक्ति के लिए पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और पॉलिसी के तहत कवर किए गए शेष बीमित व्यक्तियों के लिए जारी रहेगी, हालांकि अन्य बीमित व्यक्तियों के लिए दूसरे दावे के भुगतान के बाद पॉलिसी सभी बीमित व्यक्तियों के लिए समाप्त हो जाएगी.

पॉलिसी अवधि: 1 वर्ष

बहिष्करण

प्रतीक्षा अवधि- 15 दिनों की प्रतीक्षा अवधि/ 60 दिनों की प्रतीक्षा अवधि यदि किसी सूचीबद्ध वेक्टर जनित रोगों के होने के बाद पॉलिसी का चयन किया जाता है.

UIN: BAJHLIP22019V022122

- **प्रीमियम चार्ट**
प्रीमियम GST छोड़कर दिया गया है.

प्रीमियम (रु. में)	
बीमा राशि (रु. में)	व्यक्तिगत
10,000	160
15,000	240
25,000	400

बीमा राशि (रु. में)	प्रीमियम (रु. में)		
	स्वयं+पति/पत्नी	स्वयं+पति/पत्नी+2 सदस्य (बच्चा और या माता/पिता)	स्वयं+पति/पत्नी+4 सदस्य (बच्चा और या माता/पिता)
10,000	240	320	400
15,000	360	480	600
25,000	600	800	1,000
देय दावों की संख्या	1 दावा	2 दावा	2 दावा



बजाज आलियांज हेल्थ एनश्योर

हेल्थ एनश्योर के साथ हेल्थ श्योर है.

बीमा राशि विकल्प

व्यक्तिगत पॉलिसी:

रु.3 लाख, रु.4 लाख, रु.5 लाख, रु.10 लाख

फ्लोटर पॉलिसी (स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित बच्चों को फ्लोटर विकल्प के तहत कवर किया जा सकता है)

रु.3 लाख, रु.4 लाख, रु.5 लाख, रु.10 लाख

पॉलिसी अवधि: 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष

50 वर्ष तक **कोई मेडिकल टेस्ट नहीं**

*स्वच्छ प्रस्ताव के अधीन

लाभ:

- इन-पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट- कमरे का किराया और बोर्डिंग
- ICU चार्ज- यदि ICU में भर्ती है
- अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व (30 दिन)/ अस्पताल में भर्ती होने के पश्चात (60 दिन)
- रोड एम्बुलेंस
- डे केयर प्रक्रियाएं
- निवारक स्वास्थ्य जांच

बहिष्करण

- **प्रतीक्षा अवधि-** 30 दिन की सामान्य प्रतीक्षा अवधि, पहले से मौजूद बीमारी के लिए 24 महीने और अन्य रोग विभिन्न प्रतीक्षा अवधि.

बहिष्करण

प्रीमियम भुगतान करने के लिए यहाँ दो जोस हैं.

ज़ोन A

निम्नलिखित शहर ज़ोन A में शामिल किए गए हैं:-

दिल्ली/एनसीआर, मुंबई (नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण), हैदराबाद और सिकंदराबाद, बेंगलोर, कोलकाता, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत.

ज़ोन A

ज़ोन A के अलावा शेष भारत को ज़ोन बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

नोट:

ज़ोन A प्रीमियम दरों का भुगतान करने वाले पॉलिसीधारक बिना किसी सह-भुगतान के पूरे भारत में उपचार का लाभ उठा सकते हैं. लेकिन, जो ज़ोन बी प्रीमियम दरों का भुगतान करते हैं और ज़ोन B शहर में इलाज का लाभ उठाते हैं, उन्हें स्वीकार्य दावा राशि पर 20% सह-भुगतान करना होगा. यह सह-भुगतान आकस्मिक अस्पताल में भर्ती होने के मामलों के लिए लागू नहीं होगा. ज़ोन B में रहने वाले पॉलिसीधारक ज़ोन A के लिए प्रीमियम का भुगतान करना चुन सकते हैं और बिना किसी सह-भुगतान के पूरे भारत में इलाज का लाभ उठा सकते हैं.

प्रीमियम GST छोड़कर दिया गया है.

ज़ोन A के लिए प्रीमियम (व्यक्तिगत)

आयु/बीमा राशि	50,000	75,000	1,00,000	1,50,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
0.3Mo-20	1265	1630	2000	2557	2835	3315	3921	4622	5786
21-25	1326	1709	2095	2679	2969	3472	4108	4842	6062
26-30	1487	1916	2350	3004	3329	3894	4607	5432	6800
31-35	1559	2009	2464	3150	3491	4083	4832	5697	7131
36-40	1787	2304	2871	3670	4066	4757	5630	6639	8311
41-45	2088	2722	3430	4383	4854	5681	6724	7931	9928
46-50	2676	3519	4458	5696	6308	7383	8741	10311	12907
51-55	3530	4554	5591	7142	7908	9257	10962	12932	16189
56-60	4938	6371	7823	9993	11061	12951	15339	18098	22655
61-65	6775	8742	10735	13711	15174	17769	21048	24836	31089
66-70	9102	11745	14423	18420	20384	23871	28279	33371	41773
71-75	10326	13325	16364	20898	23126	27083	32085	37863	47396
75 वर्ष से अधिक	11795	15222	18693	23873	26417	30938	36652	43254	54143

ज़ोन B के लिए प्रीमियम (व्यक्तिगत)

आयु/बीमा राशि	50,000	75,000	1,00,000	1,50,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
0.3Mo-20	1012	1304	1600	2046	2268	2652	3137	3698	4629
21-25	1061	1367	1676	2143	2375	2778	3286	3874	4850
26-30	1190	1533	1880	2403	2663	3115	3686	4345	5440
31-35	1247	1608	1971	2520	2793	3267	3865	4557	5705
36-40	1430	1843	2297	2936	3253	3805	4504	5311	6648
41-45	1670	2177	2744	3506	3884	4544	5379	6345	7942
46-50	2140	2815	3567	4557	5046	5906	6993	8249	10326
51-55	2824	3643	4473	5714	6326	7406	8770	10346	12951
56-60	3951	5097	6258	7994	8849	10361	12271	14479	18124
61-65	5420	6993	8588	10968	12139	14215	16838	19869	24871
66-70	7281	9396	11538	14736	16307	19097	22623	26697	33418
71-75	8261	10660	13091	16719	18501	21667	25668	30291	37917
75 वर्ष से अधिक	9436	12177	14954	19098	21134	24750	29321	34603	43315

फ्लोटर बीमित राशि के लिए प्रीमियम चार्ट

1 वयस्क + 1 बच्चे

आयु/ बीमा राशि	जोन A					जोन B				
	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
18-25	4597	5376	6359	7496	9384	3678	4300	5087	5997	7507
26-30	4882	5709	6754	7962	9968	3905	4567	5403	6370	7974
31-35	5010	5859	6932	8172	10231	4008	4687	5546	6538	8185
36-40	5465	6393	7564	8919	11165	4372	5114	6051	7135	8932
41-45	6197	7249	8579	10116	12664	4957	5799	6863	8093	10131
46-50	7632	8931	10572	12468	15608	6106	7145	8457	9975	12486
51-55	9028	10566	12509	14754	18470	7222	8452	10007	11803	14776
56-60	12605	14756	17474	20615	25806	10084	11805	13979	16492	20645
61-65	17014	19920	23593	27837	34846	13611	15936	18874	22270	27877
66-70	22407	26238	31079	36673	45906	17926	20990	24863	29338	36725
71-75	24745	28979	34331	40514	50713	19796	23183	27464	32411	40571
75 वर्ष से अधिक	28266	33103	39217	46282	57933	22613	26483	31374	37025	46347

1 वयस्क + 2 बच्चे

आयु/ बीमा राशि	जोन A					जोन B				
	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
18-25	5812	6797	8040	9477	11865	4650	5437	6432	7582	9492
26-30	6054	7080	8376	9874	12361	4843	5664	6701	7899	9889
31-35	6163	7208	8527	10052	12584	4930	5766	6822	8042	10067
36-40	6550	7661	9064	10686	13377	5240	6129	7251	8549	10702
41-45	7171	8388	9926	11703	14651	5737	6711	7941	9363	11721
46-50	8481	9923	11744	13850	17338	6785	7938	9396	11080	13870
51-55	9909	11595	13725	16188	20264	7927	9276	10980	12950	16212
56-60	13057	15282	18095	21345	26720	10445	12226	14476	17076	21376
61-65	17719	20744	24566	28983	36280	14175	16595	19653	23186	29024
66-70	23279	27256	32282	38090	47681	18623	21805	25826	30472	38144
71-75	26364	30875	36576	43164	54031	21091	24700	29261	34531	43225
75 वर्ष से अधिक	30115	35269	41783	49309	61723	24092	28215	33426	39448	49379

1 वयस्क + 3 बच्चे

आयु/ बीमा राशि	जोन A					जोन B				
	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
18-25	7000	8186	9683	11414	14290	5600	6549	7747	9132	11432
26-30	7220	8443	9988	11774	14739	5776	6754	7990	9419	11792
31-35	7318	8559	10125	11936	14942	5855	6847	8100	9548	11954
36-40	7669	8970	10612	12510	15661	6135	7176	8489	10008	12529
41-45	8233	9629	11394	13433	16816	6586	7703	9115	10746	13453
46-50	9421	11021	13043	15379	19253	7537	8817	10434	12303	15402
51-55	10797	12633	14953	17634	22075	8638	10107	11962	14107	17660
56-60	13871	16234	19220	22670	28379	11097	12987	15376	18136	22703
61-65	18549	21713	25712	30333	37971	14839	17371	20570	24266	30377
66-70	24665	28884	34217	40379	50545	19732	23107	27374	32303	40436
71-75	27983	32771	38822	45815	57349	22386	26217	31058	36652	45879
75 वर्ष से अधिक	31964	37435	44349	52337	65513	25572	29948	35479	41870	52411

फ्लोटर बीमित राशि के लिए प्रीमियम चार्ट

1 वयस्क + 4 बच्चे

आयु/ बीमा राशि	जोन A					जोन B				
	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
18-25	8201	9590	11344	13372	16740	6561	7672	9075	10698	13392
26-30	8407	9831	11630	13710	17163	6726	7865	9304	10968	13730
31-35	8500	9940	11759	13862	17353	6800	7952	9407	11089	13883
36-40	8830	10326	12216	14402	18029	7064	8261	9773	11521	14423
41-45	9359	10946	12951	15269	19114	7487	8757	10361	12215	15291
46-50	10475	12253	14500	17097	21403	8380	9803	11600	13678	17122
51-55	11768	13768	16295	19215	24054	9414	11014	13036	15372	19244
56-60	14733	17241	20410	24072	30134	11786	13793	16328	19258	24108
61-65	19426	22744	26941	31791	39794	15541	18195	21553	25432	31835
66-70	26092	30555	36197	42715	53469	20874	24444	28957	34172	42775
71-75	29602	34667	41068	48465	60666	23681	27733	32855	38772	48533
75 वर्ष से अधिक	33814	39600	46914	55365	69303	27051	31680	37531	44292	55443

2 वयस्क

आयु/ बीमा राशि	जोन A					जोन B				
	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
18-25	4595	5373	6356	7493	9380	3676	4298	5085	5994	7504
26-30	5151	6025	7128	8404	10521	4121	4820	5703	6723	8417
31-35	5401	6318	7476	8814	11034	4321	5054	5981	7051	8828
36-40	6291	7360	8711	10272	12859	5033	5888	6969	8218	10287
41-45	7511	8790	10405	12271	15361	6009	7032	8324	9817	12289
46-50	9760	11423	13525	15954	19972	7808	9139	10820	12763	15977
51-55	12236	14323	16962	20010	25049	9788	11459	13569	16008	20039
56-60	17115	20039	23734	28003	35054	13692	16031	18987	22403	28043
61-65	23479	27493	32567	38429	48104	18783	21995	26054	30743	38484
66-70	31541	36936	43756	51635	64635	25232	29549	35005	41308	51708
71-75	35783	41906	49645	58586	73335	28627	33525	39716	46869	58668
75 वर्ष से अधिक	40875	47870	56711	66927	83776	32700	38296	45369	53541	67021

2 वयस्क + 1 बच्चे

आयु/ बीमा राशि	जोन A					जोन B				
	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
18-25	5893	6891	8152	9609	12030	4714	5513	6521	7687	9624
26-30	6376	7457	8822	10401	13020	5101	5965	7058	8320	10416
31-35	6593	7711	9124	10757	13466	5275	6169	7299	8605	10773
36-40	7366	8616	10196	12022	15050	5893	6893	8157	9618	12040
41-45	8515	9963	11792	13906	17408	6812	7970	9433	11125	13926
46-50	10709	12532	14836	17499	21906	8567	10026	11869	13999	17524
51-55	12967	15177	17970	21198	26536	10374	12142	14376	16959	21229
56-60	18119	21212	25121	29638	37100	14495	16970	20097	23710	29680
61-65	24620	28827	34144	40288	50432	19696	23062	27315	32231	40345
66-70	32968	38607	45735	53971	67559	26374	30886	36588	43177	54047
71-75	37402	43802	51890	61236	76653	29922	35042	41512	48989	61322
75 वर्ष से अधिक	42724	50036	59277	69955	87566	34179	40028	47421	55964	70053

फ्लोटर बीमित राशि के लिए प्रीमियम चार्ट

2 वयस्क + 2 बच्चे

आयु/ बीमा राशि	जोन A					जोन B				
	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
18-25	7107	8311	9831	11589	14508	5686	6649	7865	9271	11607
26-30	7547	8827	10443	12311	15411	6038	7061	8354	9848	12329
31-35	7746	9059	10718	12635	15818	6196	7247	8574	10108	12654
36-40	8450	9884	11695	13789	17262	6760	7907	9356	11031	13809
41-45	9498	11111	13150	15506	19411	7598	8889	10520	12404	15529
46-50	11580	13550	16039	18916	23680	9264	10840	12831	15133	18944
51-55	13858	16219	19202	22649	28352	11087	12975	15361	18119	22682
56-60	18663	21852	25881	30537	38226	14931	17481	20705	24430	30581
61-65	25604	29981	35514	41906	52457	20483	23985	28411	33525	41966
66-70	34394	40278	47715	56307	70483	27516	32223	38172	45046	56387
71-75	39021	45698	54136	63887	79971	31217	36558	43309	51110	63977
75 वर्ष से अधिक	44573	52201	61842	72982	91356	35659	41761	49474	58386	73085

2 वयस्क + 3 बच्चे

आयु/ बीमा राशि	जोन A					जोन B				
	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
18-25	8308	9715	11492	13547	16959	6646	7772	9194	10837	13567
26-30	8721	10200	12066	14224	17807	6977	8160	9653	11379	14246
31-35	8908	10418	12325	14529	18189	7126	8334	9860	11623	14551
36-40	9569	11192	13243	15613	19545	7655	8954	10594	12490	15636
41-45	10554	12346	14610	17226	21565	8443	9877	11688	13781	17252
46-50	12510	14637	17324	20430	25575	10008	11710	13859	16344	20460
51-55	14728	17235	20403	24064	30124	11782	13788	16322	19251	24099
56-60	19440	22758	26955	31804	39812	15552	18207	21564	25443	31849
61-65	26666	31225	36987	43645	54633	21333	24980	29590	34916	43707
66-70	35821	41949	49694	58643	73407	28657	33559	39755	46915	58726
71-75	40640	47594	56382	66537	83288	32512	38075	45106	53230	66631
75 वर्ष से अधिक	46422	54367	64408	76010	95146	37138	43493	51526	60808	76117

2 वयस्क + 4 बच्चे

आयु/ बीमा राशि	जोन A					जोन B				
	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000	2,00,000	3,00,000	4,00,000	5,00,000	10,00,000
18-25	9522	11135	13172	15526	19437	7618	8908	10537	12421	15550
26-30	9918	11599	13722	16176	20250	7935	9279	10977	12940	16200
31-35	10097	11808	13969	16468	20616	8077	9446	11175	13174	16492
36-40	10730	12550	14849	17506	21915	8584	10040	11879	14005	17532
41-45	11674	13655	16158	19052	23850	9339	10924	12927	15241	19080
46-50	13548	15850	18759	22121	27693	10838	12680	15007	17697	22154
51-55	15673	18340	21709	25603	32050	12538	14672	17367	20482	25640
56-60	20262	23715	28078	33120	41460	16209	18972	22462	26496	33168
61-65	27728	32469	38460	45383	56809	22182	25975	30768	36307	45448
66-70	37248	43620	51674	60979	76331	29799	34896	41339	48784	61065
71-75	42259	49489	58628	69188	86606	33807	39592	46903	55350	69285
75 वर्ष से अधिक	48272	56532	66974	79038	98936	38617	45226	53579	63230	79149



बजाज आलियांज मेरा होम इंश्योरेंस सभी जोखिम पॉलिसी क्योंकि घर हमेशा के लिए होते हैं.

कवर कौन खरीद सकता है

- फ्लैट / अपार्टमेंट / स्वतंत्र बिल्डिंग / सामग्री और आभूषण एवं मूल्यवान वस्तुओं, कला के कार्यों, क्यूरीयस और पेंटिंग में इंश्योरेंस इंटरैस्ट वाले व्यक्ति का कोई भी मालिक
- आवासीय संरचना के किरायेदार और अन्य गैर-मालिक जिनके पास इन्श्योरेंस इंटरैस्ट होता है, वे आवासीय उद्देश्य के लिए उनके द्वारा अधिकृत वाले फ्लैट/अपार्टमेंट/स्वतंत्र बिल्डिंग में सामग्री और आभूषण और मूल्यवान, कला के काम, क्यूरीयस और पेंटिंग्स का बीमा कर सकते हैं.
- कोई भी संगठन/संस्था/फर्म जो अपने स्वयं के कर्मचारियों/व्यावसायिक भागीदारों/ठेकेदारों के आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले फ्लैट/अपार्टमेंट/स्वतंत्र बिल्डिंग के मालिक है और जिनका उसमें इंश्योरेंस इंटरैस्ट है.

कवरेज

- बिल्डिंग (संरचना)
- पोर्टेबल उपकरण सहित सामग्री
- आभूषण, कीमती सामान, कलाकृति, पेंटिंग और कला का काम

UPS का उत्पाद

- सहमत मूल्य के आधार पर बिल्डिंग संरचना
- पॉलिसी अवधि- 15 दिन से 5 वर्ष
- सामग्री - पुराने आधार के लिए नया
- आभूषण और पोर्टेबल उपकरणों के लिए उपलब्ध विश्वव्यापी कवरेज उपलब्ध है
- 5 लाख रुपये से अधिक की SI (बीमा राशि) वाली सामग्री के लिए आवश्यक सामग्री की कोई सूची नहीं



• **प्रीमियम दर**

वार्षिक पॉलिसीस के लिए प्रीमियम दर

क्रम संख्या	विवरण	मूल प्रीमियम दर			वर्ल्डवाइड कवरेज के लिए लोडिंग
		प्लैटिनम प्लान	डायमंड प्लान	गोल्ड प्लान	
कवर 1	बिल्डिंग	0.04%	0.04%	0.03%	लागू नहीं
कवर 2	क्षतिपूर्ति करने पर पोर्टेबल उपकरण को छोड़कर सामग्री	0.30%			*सामग्री के लिए बेसिक प्रीमियम रेट का 10%
	पोर्टेबल उपकरण को छोड़कर सामग्री पुराने आधार पर नए पर	0.50%			*सामग्री के लिए बेसिक प्रीमियम रेट का 10%
	क्षतिपूर्ति के आधार पर पोर्टेबल उपकरण	1.70%			*सामग्री के लिए बेसिक प्रीमियम रेट का 10%
	पुराने आधार पर नए पर पोर्टेबल उपकरण	2.20%			*सामग्री के लिए बेसिक प्रीमियम रेट का 10%
कवर 2	पूर्ण बीमा राशि के आधार पर आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं	0.50%			आभूषण और मूल्यवान वस्तुओं के लिए बेसिक प्रीमियम रेट का 25%
	25% पहले नुकसान के आधार पर आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं	1.80%			आभूषण और मूल्यवान वस्तुओं के लिए बेसिक प्रीमियम रेट का 25%
	40% पहले नुकसान के आधार पर आभूषण और मूल्यवान वस्तुएं	1.00%			आभूषण और मूल्यवान वस्तुओं के लिए बेसिक प्रीमियम रेट का 25%
कवर 4	कला, क्युरियोस, पेंटिंग्स के 4 काम	1.00%			लागू नहीं

शोर्ट टर्म पॉलिसीस के लिए प्रीमियम दर

पॉलिसी की अवधि	प्रीमियम
15 दिनों तक	वार्षिक दर का 10%
16 से 30 दिन	वार्षिक दर का 15%
31 से 60 दिन	वार्षिक दर का 30%
61 से 90 दिन	वार्षिक दर का 37%
91 से 120 दिन	वार्षिक दर का 40%
121 से 150 दिन	वार्षिक दर का 42%
151 से 180 दिन	वार्षिक दर का 45%
181 से 210 दिन	वार्षिक दर का 65%
211 से 240 दिन	वार्षिक दर का 75%
241 से 270 दिन	वार्षिक दर का 85%
271 दिन से एक वर्ष तक	वार्षिक दर का 100%

बीमा राशि की गणना के लिए उदाहरण

स्थान	रजिस्टर्ड सेल डीड अग्रीमेंट (a) में उल्लिखित कुल वर्ग फूट क्षेत्र	प्रस्ताव (b) की तिथि के अनुसार उल्लिखित स्थान के लिए प्रति वर्ग फूट रेडी रेकनर कीमत	बीमा राशि = (a)*(b)
विमान नगर, पुणे	590 Sq. Ft	# Rs. 4800 per Sq.Ft.	590 (Sq. Ft) * 4800 (Rs.) = 28, 32,000



बजाज आलियांज मोटर इंश्योरेंस

आपके मोटरिंग अनुभव के लिए बेजोड़ देखभाल और सुरक्षा

मोटर बीमा पॉलिसी की विशेषताएं

एक व्हीकल बीमा पॉलिसी कई विशेषताओं/सुविधाओं के साथ बनी होती है जो न केवल वाहन मालिकों के लिए बल्कि अन्य पार्टियों के लिए भी फायदेमंद होती है। बीमा कंपनियां एक वाहन मालिक को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करके अपने ग्राहकों और अन्य लोगों को सड़क पर सुरक्षित रखने की अनुमति देती हैं।

- न्यूनतम प्रयासों के साथ ऑनलाइन मोटर बीमा प्राप्त करने का आसान तरीका
- संपूर्ण सुरक्षा के लिए व्यापक और तृतीय पक्ष बीमा का लाभ उठाएं
- यात्रा करने या फॉर्म की हार्ड कॉपी भरने में अपना समय बर्बाद किए बिना बीमा को ऑनलाइन नवीनीकृत करें।
- बाढ़, भूकंप, चोरी, दुर्घटना और बर्बरता सहित प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के खिलाफ उचित कवरेज प्राप्त करें।
- अन्य पक्षों के नुकसान की भरपाई के लिए तृतीय-पक्ष देयता कवरेज शामिल करें।
- दुर्घटना और चोरी के मामले में पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने से कैशलेस क्लेम करना भी आसान हो जाता है।
- अधिकांश कंपनियों के पास गैर्रेज का एक नेटवर्क होता है जहां आप मरम्मत कार्य करवा सकते हैं और दुर्घटना के बाद वाहन की स्थिति का मूल्यांकन करना बता सकते हैं।
- नो क्लेम बोनस फीचर वाहन मालिक को किसी भी समय दावा करने की अनुमति देता है और यहां तक कि अन्य बीमाकर्ताओं को हस्तांतरण की पेशकश भी करता है।
- सभी मोटर बीमा कंपनियां ग्राहकों को मोटर बीमा पॉलिसी और दावे की स्थिति के बारे में अपडेट रखने के लिए समर्पित सहायता और ग्राहक सहायता सेवा प्रदान करती हैं।
- ग्राहकों को किसी भी समय पॉलिसी में कवरेज जोड़ने की अनुमति देने के लिए ऐड-ऑन सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

बजाज आलियांज मोटर बीमा क्यों चुनें?

सुविधाएं	बजाज आलियांज पेश करता है
खर्चों पर कवर	प्राकृतिक आपदाओं या वाहन की खराबी के कारण दुर्घटनाओं और क्षति के लिए पूर्ण कवरेज
तृतीय पक्ष दायित्व	दूसरों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा
व्यक्तिगत लाभ	गंभीर चोटों या दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता के बाद वित्तीय सहायता
PA (प्रतिवर्ष) कवर	रु.15 लाख तक
दावा निपटारा दर	98%
कोई दावा बोनस नहीं	50% तक
एड-ऑन लाभ	शून्य डेप्रिसिएशन (मूल्यहास) कवर, ब्रेकडाउन सहायता, वाहन लाभ, कंज्युमेबल कवर, और बहुत कुछ
ऑनलाइन सेवा	पेपरलेस-डिजिटल बीमा आवेदन और प्रसंस्करण, ऑनलाइन दावे, स्पॉट सेवाएं, और कवरेज अपनाना
दावा प्रक्रिया	डिजिटल- 20 मिनट के भीतर

भारत में मोटर बीमा के प्रकार

चाहे आप एक निजी कार, दोपहिया, या एक कमर्शियल कार खरीद रहे हों, मोटर बीमा योजनाओं के प्रकारों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:

• व्यापक बीमा पॉलिसी

इस पॉलिसी के साथ, आप अपने वाहन के साथ-साथ मोटरबाइक, निजी कार, स्कूटर और कमर्शियल वाहनों सहित अन्य को हुए नुकसान के लिए भुगतान कर सकते हैं.

• तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी

तृतीय-पक्ष मोटर बीमा पॉलिसी देयता कवरेज है जो सभी वाहनों पर समान रूप से लागू होती है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, भारतीय सड़कों पर चलने वाले वाहनों के लिए थर्ड पार्टी कार बीमा और बाइक के लिए थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है. इस नियम का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को मोटर संशोधन अधिनियम, 2019 के अनुसार भारी जुर्माना भरना होगा.

• उपयोगानुसार भुगतान करें

यह एक नए प्रकार की पॉलिसी है जो पॉलिसीधारकों को चलाए गए किलोमीटर की गणना करके भुगतान करने की अनुमति देती है. इन दो मोटर बीमा पॉलिसियों को ध्यान में रखते हुए, वाहन बीमा के प्रकारों को नीचे वर्गीकृत किया गया है.

कार बीमा

अपने निजी चार पहिया वाहन को सुरक्षित करने का आदर्श विकल्प कार बीमा करवाना है. यह एक अनुबंध है जो वाहन मालिक और बीमा कंपनी के बीच तैयार किया जाता है जो व्यापक नीति और तीसरे पक्ष की देयता दोनों को कवर करता है. इस योजना के साथ, आपको निम्न लाभ प्राप्त होंगे:

- कैशलेस दावे
- व्यक्तिगत दुर्घटना कवर
- नुकसान/क्षति सुरक्षा
- तीसरे पक्ष की चोटों और मृत्यु के दावों के लिए असीमित देयता

दोपहिया वाहन का बीमा

जैसा कि नाम से पता चलता है, दोपहिया बीमा या बाइक बीमा स्कूटर, बाइक और अन्य दोपहिया वाहनों के लिए है। यह एक प्रकार का वाहन बीमा है जो एक सुरक्षित सवारी सुनिश्चित करेगा क्योंकि दोपहिया वाहनों में व्यक्तिगत चोटों का थोड़ा अधिक जोखिम होता है। योजना में शामिल लाभ हैं:


- o व्यापक कवरेज
- o 2/3 वर्ष का स्वयं के नुकसान का मोटर बीमा
- o नो क्लेम बोनस सुरक्षा
- o मुद्रास्फीति से सुरक्षा

कमर्शियल वाहन बीमा

कमर्शियल वाहनों को नुकसान का जोखिम निजी वाहनों की तुलना में अधिक है। इसलिए, कमर्शियल वाहन बीमा झाड़वों को दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में होने वाले नुकसान को कम करने में सहायता देता है। इसमें ट्रैक्टर, क्रेन, टैक्सी, माल ढोने वाले वाहन, यात्री लाने-ले जाने वाले वाहन आदि जैसे वाहन शामिल हैं। लाभों में शामिल होंगे:

- o चोट के लिए असीमित देयता कवरेज
- o व्यक्तिगत दुर्घटना कवर
- o नुकसान और क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है
- o दूसरे की संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति

आप एक उपयुक्त वाहन बीमा पॉलिसी खरीद सकते हैं जो खराब स्थिति में सभी प्रकार के वाहनों की सुरक्षा करती है। चाहे वह आग, चोरी, बर्बरता, भूकंप, बाढ़, तूफान या दुर्घटना हो; आप सभी परिस्थितियों में सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।



आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी आपको और आपके परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा

कवरेज	बीमा राशि (न्यूनतम)	बीमा राशि (अधिकतम)	टिप्पणी
1. अस्पताल में भर्ती	रु.50,000	रु.25,00,000	1. कमरे का किराया, बोर्डिंग, नर्सिंग खर्च- बीमित राशि का 2% प्रति दिन अधिकतम रु.5000/- के अधीन 2. इंटेसिव केयर यूनिट (ICU)/ इंटेसिव कार्डिएक केयर यूनिट (ICCU) - बीमित राशि का 5%, अधिकतम रु.10,000/- प्रति दिन के अधीन 3. रोड एम्बुलेंस अधिकतम रु. 2000/- प्रति अस्पताल में भर्ती
2. आयुष उपचार	रु.50,000	रु.25,00,000	
3. मोतियाबिंद उपचार	बीमित राशि का 25% या रु.40,000/-, जो भी कम हो, एक पॉलिसी अवधि में प्रत्येक आँख के लिए.		
4. अस्पताल में भर्ती होने के पूर्व	अस्पताल में भर्ती होने तक और	30 दिन	
5. अस्पताल में भर्ती होने के पश्चात	उसके भीतर बीमा राशि	60 दिन	
6. आधुनिक उपचार की विधी	अस्पताल में भर्ती होने पर बीमा राशि का 50%		A. गर्भाशय धमनी एम्बोलिजेशन और HIFU (हाई इंटेनसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड) B. बैलून सिनुप्लास्टी C. डीप ब्रेन स्टिमुलेशन D. ओरल कीमोथेरेपी E. इन्स्यूनोथेरेपी - इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी F. इंद्राविट्रियल इंजेक्शन G. रोबोटिक सर्जरी H. स्टीरियोटेक्टिक रेडियो सर्जरी I. ब्रॉन्कियल थर्मोप्लास्टी J. प्रोस्टेट का वाष्पीकरण (ग्रीन लेजर उपचार या होल्मियम लेजर उपचार) K. IONM - (इंड्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग) L. स्टेम सेल थेरेपी: हेमटोलॉजिकल स्थितियों के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के लिए हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल को कवर किया जाना है.



■ **आरोग्य संजीवनी- प्रीमियम तालिका**

नोट: प्रीमियम रुपये में हैं और सभी करें को छोड़कर

1. **व्यक्तिगत बीमा राशि पॉलिसियों के लिए प्रीमियम**

आयु/बीमा राशि	1,00,000	1,50,000	2,00,000	2,50,000	3,00,000	3,50,000	4,00,000	4,50,000	5,00,000
3m-20 Yrs	2,400	2,850	3,100	3,300	3,400	3,500	3,550	3,600	3,700
21-25 Yrs	3,350	3,900	4,300	4,550	4,700	4,800	4,900	5,000	5,100
26-30 Yrs	3,650	4,300	4,750	5,000	5,150	5,300	5,400	5,500	5,600
31-35 Yrs	3,900	4,550	5,050	5,350	5,500	5,600	5,750	5,850	5,950
36-40 Yrs	4,400	5,150	5,700	6,050	6,200	6,350	6,500	6,600	6,750
41-45 Yrs	5,300	6,200	6,800	7,200	7,450	7,600	7,800	7,950	8,050
46-50 Yrs	7,000	8,150	9,000	9,550	9,850	10,100	10,300	10,500	10,650
51-55 Yrs	9,050	10,600	11,700	12,400	12,800	13,100	13,350	13,600	13,850
56-60 Yrs	12,000	14,050	15,500	16,450	16,950	17,350	17,700	18,050	18,350
61-65 Yrs	16,650	19,500	21,500	22,800	23,500	24,050	24,550	25,050	25,450
66-70 Yrs	22,750	26,650	29,400	31,200	32,150	32,900	33,600	34,250	34,800
71-75 Yrs	29,000	34,000	37,500	39,750	40,950	41,950	42,800	43,650	44,350
76 वर्ष से अधिक	32,650	38,200	42,150	44,700	46,050	47,200	48,150	49,050	49,900

आयु/बीमा राशि	7,50,000	10,00,000	12,50,000	15,00,000	20,00,000	25,00,000
3m-20 Yrs	4,350	4,650	4,950	5,150	5,550	5,850
21-25 Yrs	6,000	6,450	6,800	7,150	7,650	8,100
26-30 Yrs	6,600	7,050	7,450	7,800	8,400	8,850
31-35 Yrs	7,050	7,550	8,000	8,350	8,950	9,500
36-40 Yrs	7,900	8,500	9,000	9,400	10,100	10,700
41-45 Yrs	9,500	10,200	10,800	11,300	12,150	12,850
46-50 Yrs	12,600	13,500	14,300	14,950	16,050	16,950
51-55 Yrs	16,350	17,550	18,550	19,450	20,850	22,050
56-60 Yrs	21,650	23,250	24,600	25,700	27,650	29,200
61-65 Yrs	30,000	32,250	34,100	35,650	38,300	40,500
66-70 Yrs	41,050	44,100	46,650	48,800	52,400	55,400
71-75 Yrs	52,300	56,200	59,400	62,150	66,750	70,550
76 वर्ष से अधिक	58,850	63,200	66,800	69,900	75,050	79,350

बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी

बजाज आलियांज हाउस, एयरपोर्ट रोड, येरवाडा, पुणे-411006. पंजी. 113 | CIN: U66010PN2000PLC015329 | अधिक जानकारी के लिए, लॉग ओन करें: www.bajajallianz.com या कॉल करें : सेल्स- 1800 209 0144/ सर्विस- 1800 209 5858 (टोल फ्री नंबर) जोखिम करक और नियम व शर्तों पर अधिक जानकारी के लिए, कृपया बिक्री समाप्त करने से पहले सेल्स ब्रोशर ध्यानपूर्वक पढ़ें. | BJAZ-O-2335/25-Aug-21